

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE सहायता हेतु आवेदन प्राप्ति | | (Healthcare) (स्वास्थ्य देखभाल) | Koshika foundation Building block of life. |
| APPLICATION No.: आवेदन संख्या: | 3/0524/0295 | APPLICATION DATE: आवेदन तिथि: | 10/15/24 |
| NAME of APPLICANT: आवेदक का नाम: | Honumonthaiah | AGE-YEARS आयु-वर्ष: | 58 |
| FATHER'S/SPOUSE'S NAME: पिता/पत्नी का नाम: | s/o Sannadoddayya | SEX लिंग: | M |
| PRESENT RESIDENCE ADDRESS वर्तमान आवासोंचे पत्ता | | | |
| Sarathavalli post Honavalli Hubli Tiptur Tumkur Karnataka | | | |
| PERMANENT RESIDENCE ADDRESS: स्थान आवासोंचे पत्ता | | | |
| Same as above | | | |
| OCCUPATION: जबरदस्ती: | Coolie | MARRIED (विवाहित) / UNMARRIED (अविवाहित) | |
| TOTAL ANNUAL INCOME: कूल वार्षिक आय: | 20,000/- | (Attach Proof of Income) (आय का साक्ष प्रमाणन). | |
| PAN No. स्थाई ज्ञात संख्या: | | | |
| ARE YOU AN INCOME TAX ASSESSEE (Tick whichever is applicable): इस आय आय कर रहा है (जो मासिक हो उस पर एही का निशान लगायें): | | | |
| Yes / No हाँ / नहीं | | | |
| FAMILY DETAILS परिवार क्रियाग्रह | | | |
| Sr. No. क्रम संख्या | Name of Family Member परिवार के सदस्यों का नाम | Age (Years) उम्र (वर्ष) | Gender लिंग |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| BASIS for REQUESTING ASSISTANCE (Tick whichever is applicable) सहायता के लिये चिन्हित आधार | | | |
| BPL Card (Attach Card Copy) गर्भावासी रेता के लिये प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की जाता ही संलग्न करें) | EWS Certificate (Attach Certificate Copy) अस्टन व्यव वर्गी प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की जाता ही संलग्न करें) | Ration Card (Attach Copy) उपभोक्ता कार्ड (प्रमाण पत्र की जाता ही संलग्न करें) | Any Other Basis/Proof अन्य कोई साक्ष |
| "PURPOSE" for REQUESTING ASSISTANCE: सहायता हेतु किये गये विकल्प का उल्लेखः | | | |
| Sr. No. क्रम संख्या | Medical Reports/Prescriptions Attached अस्पताल/हॉस्पिट से जारी की गई प्रतिवेदन सूची संलग्न | | |
| 1) Diagnosis | RF cataract LE cataract | | |
| 2) Surgery | REcatteract + PCOL | | |
| ASSISTANCE BEING AVALIED for SAME "PURPOSE" from OTHER SOURCES इस उल्लेख के द्वारा कोई अन्य सहायता किसी अन्य स्रोत से लिया गया हो? | | | |
| Sr. No. क्रम संख्या | NAME of OTHER SOURCE अन्य स्रोत का नाम | AMOUNT of ASSISTANCE BEING AVALIED मौजूदा सहायता राशी | |
| 1) DBCS | | | 2000/- |

DECLARATION by APPLICANT: आवेदक द्वारा संदर्भ पत्र:

- 1) I hereby confirm that all details in this Form are True to the best of my knowledge. Any false statement will render my Application & ongoing assistance, if any, liable for rejection/cancellation.
 2) I solemnly confirm that assistance, if received from Koshika Foundation, will be used only for the "purpose", as stated in this Form, for which such assistance was requested by me.
 3) I hereby confirm that I have not & will not in future, avail of reimbursement, in part or in full, from any other source/employer/insurance company, of the amount for which this assistance is requested.

1) मैं योग्यता करता हूँ कि इस प्राप्ति में दिये गये विवरण सभी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। परं, कोई विवरण ऐसे कामना वाला नहीं है जो मेरी सहायता प्रियता को जा जाकरी है।
 2) मैं इस योग्यता करता हूँ कि "कारोबार कारबाहर", से कोई जा नहीं है, उम्मीद उम्मी उद्देश्य की पूर्ति के दिये किया जायेगा, जो इस प्राप्ति में पाया गया है।

AGREEMENT by APPLICANT (initials or name)

- 1) By affixing my signature or thumb impression on this Form, I (Applicant) hereby agree & authorise Koshika Foundation and it's Trustees to user/publish/put-up/reproduce my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, through any medium, including but not limited to verbal, print, electronic, for soliciting donations for Koshika Foundation and/or disseminating information about it's activities/achievements. Such use of my photo & details can be made by Koshika Foundation before or after my treatment or fulfillment of the "purpose" for which assistance is being requested.

- for which assistance is being requested.


2) I (Applicant) further agree that any such use of my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, will not automatically entitle me for receiving or continuing the said assistance. The decision for granting and/or continuing the assistance will rest solely with the Trustees of Koshika Foundation, and their decision in this regard will be final and acceptable to me.

१) इस प्रकार पर अपने हमाराजा या अंगठे की लाप सत्त्वाकार, में (अवैश्वक) अपनी सहभागी को पुष्टि करता है एवं "कोशिका चलाईंगान और उसके न्यासीयों" को अधिकृत करता है कि ये वह नाम, पता, जाणे और वो विवरण इस प्रकार में खोलता है, उसे "कोशिका" एवं नामी, दाम, पाचनकथा दूसरे उद्देश्य में नुटी गतिविधियों और उच्छालित्यों के लिये किसी भी प्रकार प्रयोग

में प्रभावी जगते को लिए अधिकृत है। यह एक का विवरण में इनका का जगते का बात से जुड़ा करता है। 2) में (अल्पेश्वर) इस जगते में महात्मा है कि मैं चाह, चाह, 'कोटी' और विवरण को कि महात्मा वे उद्दीरणों से प्रभावी है जुँग जगत: महात्मा का हमारा भी जगत। इस सम्बन्ध में

APPLICANT'S SIGNATURE OR LEFT THUMB IMPRESSION

प्राचीन विद्यालयों के समान अधिकारी एवं अधिकारी



AGREEMENT by HOSPITAL (印紙或簽名)

By affixing hereunder, signature of our Authorised Signatory for recommending this case/patient for financial assistance from Koshika Foundation, we
acknowledge & accept following:

- (Hospital) hereby affirm & accept following:

1) that we neither are presently nor will in future avail of financial assistance from another NGO or any other source, for the same patient/case, as we are requesting to get from Koshika Foundation, to the extent that such assistance is granted by Koshika Foundation. If the requested assistance is not granted by Koshika Foundation, in part or in full, then the Hospital reserves it's right to make up the shortfall from another NGO or any other source. This confirmation essentially states that the Hospital will not avail any duplicate assistance for the same patient/case from any other NGO or any other source.

2) The assistance from Koshika Foundation is only financial in nature. The choice of the treatment/procedure advised/conducted by the Hospital on the patient, is based on the arrangement between the patient & the Hospital, and is in no way influenced by Koshika Foundation. Hence, the Hospital will assume sole & complete responsibility of the treatment & it's outcome & safety of the patient, and Koshika Foundation will have no role or responsibility in this matter.

कर्ता अधिकारी द्वारा की गयी से ज्ञानेश्वरी को "कालिका पात्रन्देश" से विस्तृत महायात्रा हुई। इसके बाहरी की जगती है, जिसे एक (हमलाल) निम्न प्रकार से व्यक्त व स्पीकर करते हैं।

- 1) यह कि व तो सामान अैर न ही भविष्य में वित्तिग साहाय्य कियो गया साकारी संसदन ये किसी अप्य लक्षण से उत्पन्न गोपीयामाने में से ऐसे या तंत्र होते हैं, जैसे कि हमने "कांशिका प्रादन्देशन" से विकारीतविनाश उक्त के व्यवध में "कांशिका प्रादन्देशन" द्वारा नियन्त्रित होता कि है; यह "कांशिका प्रादन्देशन" द्वारा साहाय्य विनाश अविकारात्मकता बेतु मन्त्र नहीं किया जाता है तो सामान्यता कियो गया तौर साकारी संसद्या ये कियो जन्म सामान्य से साहाय्य से को अधिकारा सुधृष्टि रखता है। इस पूर्ण में नियन्त्रण करा जाता है कि अस्पतल द्वितीय नियन्त्रण उक्त गोपीयामाने हेतु कियो गया साकारी संसद्या ये कियो अप्य साधन से जड़ी लेना/लेनी।

2. "कांशिका फाइब्रोजन" में ली गई सहायता कोवल विशेष प्रकृति नहीं है। ऐसी पर हमस्तत द्वारा दी गई सहायता या किसे गये उपचार/प्रक्रिया का चुनाव योगी पर्यंत हमस्तत के बोन का विषय है और "कांशिका फाइब्रोजन" द्वारा किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इसलिए हमस्तत में ऐसी को इतना सुरक्षा और अद्यते करने को मारी जिम्मेदारी योगी पर्यंत हमस्तत भी नहीं होती। "कांशिका" को कोई खुफिया या जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति में नहीं होती।

RECOMMENDED FOR ACCEPTANCE
स्वीकृति के लिये संस्कृति

Mr. Lakshmi Pathi N
Manager Outreach
Institute for Diabetes & Eye Care
(Name, Designation & Stamp of Authoritative Signatory
(A unit of Shradha Eye Care Trust.)
16/M, Thirumaval Road, Major Tank Bed Area
Chennai - 600 006, India

| | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Surgery सर्जिकल कर्ता तारीख | Dr. Laxmi Dorennavar MBBS, MS, FPRS, FICO Consultant & Researcher KMC Navi Mumbai | Mr. Lakshmpathi N Manager Outreach Institute for Diabetes & Eye Care (Name, Designation & Stamp of Authorised Signatory (A unit of Shradhik Eye Care Trust) # 16/M, Thimmayya Road, Miller Tank Bed Area कम नं 16 मिलर टैंक बेड एरिया बैंगलोर |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FOR INTERNAL USE of KOSHICA FOUNDATION

प्राचीन विद्या

SIGNATURE of TRUSTEE 1

SIGNATURE of TRUSTEE 2
नामी इस्तेह २

Safary

Eric